



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312]

नई दिल्ली, बुद्धवार, अक्टूबर 3, 1979/आश्विन 11, 1901

No. 312]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 1979/ASVINA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 1979

सीमाशुल्क

सां० कां० निं० 563 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, 97 प्रतिशत से अधिक ऐलुमिनियम वाली, 0.02 मि०मी० से 0.04 मि०मी० तक की मोटाई की और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के प्रध्याय 76 के अन्तर्गत आने वाली मादा ऐलुमिनियम पत्री को, जब उसका भारण से आयात किया जाए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अनिश्चित शुल्क से इस शर्त पर छूट देती है, कि इसमें अन्तर्निहित छूट केवल उन आयातकर्ताओं को लागू होगी जो महानिदेशक, तकनीकी विकास या विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित प्रभाव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हैं कि:—

- (1) आयातकर्ता का अधिधारा और अधिधियों के विनिर्माण के लिए अनुसंधान कार्यक्रम है, और
- (2) इस प्रकार आयातकृत ऐलुमिनियम पत्री केवल अधिधियाँ और अधिधियों के पट्टी-पैक करने के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता, ऐसे प्रचप से और ऐसा रकम के लिए, जो महानिदेशक सीमाशुल्क कन्ट्रोलर विनिर्दिष्ट करे, बंधन का निष्पादन करके स्वयं की दृग वांछित आशय करेगा कि वह मादा ऐलुमिनियम पत्री की उत्तरी मात्रा को वांछित जितनी यथास्थिति, महानिदेशक, तकनीकी विकास या विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हुई प्रमाणित नहीं का गई है, आयात करने समय पहले ही संदत्त शुल्क और इसमें दो गई छूट के न होने पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच अन्तर का, भाग को आने पर, संदाय कर देगा।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1980 तक, जिसमें यह तारोख को सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी।

[सं० 204/कां० सं० 355/182/79-सी०शु० 1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts plain aluminium foil of the thickness of 0.02 mm to 0.04 mm containing more than 97 per cent of aluminium and falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act,

1975 (51 of 1975), when imported into India from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act, subject to the condition that the exemption contained herein shall be applicable only to those importers who produce a certificate issued by the Director General of Technical Development or Development Commissioner, Small Scale Industries to the effect that—

(i) the importer has an approved programme for the manufacture of drugs and medicines; and

(ii) the aluminium foil thus imported will be used only for strip-packing of drugs and medicines;

Provided that the importer shall, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, bind himself to pay on demand the difference between the duty leviable but for the exemption contained herein, and that already paid at the time of importation, in respect of such quantity of plain aluminium foil as is not certified to have been used for the aforesaid purpose, by the Director General of Technical Development or Development Commissioner, Small Scale Industries, as the case may be.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1980.

[No. 204/F. No. 355/182/79-Cus. I]

सां. कां. निं. 564(घ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आने वाली पालीथिन फिल्म से पटलित ऐलुमिनियम पन्नी को, जब उसका आयात भारत में किया जाए,—

(1) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के हतने भाग से छूट देवी है जो मूल्यानुसार 27 1/2 प्रतिशत से अधिक है, और

(2) टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अनिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देवी है,

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो जाएगी, अर्थात्:—

(क) आयातकर्ता सहायनियम, तकनीकी विकास या विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि—

(1) आयातकर्ता के पास औषधियों और औषधियों के विनिर्माण के लिए एक अनुमोदित कार्यक्रम है, और

(2) इस प्रकार आयातित पालीथिन फिल्म से पटलित ऐलुमिनियम पन्नी का प्रयोग केवल औषधियों और औषधियों के स्ट्रिप पैकिंग के लिए किया जाएगा।

(ख) उसमें प्रयुक्त ऐलुमिनियम पन्नी की सीटाई 0.02 मि.मी. से 0.04 मि.मी. तक है और उसमें 97 प्रतिशत से अधिक ऐलुमिनियम है;

(ग) पालीथिन फिल्म से पटलित ऐलुमिनियम पन्नी से यह उपर्युक्त हो कि वह औषधियों और औषधियों के स्ट्रिप पैकिंग के संबंध में प्रयोग के लिए तैयार है; और

(घ) आयातकर्ता, ऐसे प्रथम में और ऐसी रकम के लिए, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर विनिर्दिष्ट करे, बंधपत्र का निष्पादन करके स्वयं को इस बाधन आशय करना कि वह ऐलुमिनियम पन्नी को उक्त मात्रा की बाधन, जिसकी यथास्थिति, सहायनियम, तकनीकी विकास या विकास आयुक्त, लघु उद्योग द्वारा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हुई प्रमाणित नहीं की गई है, आयात करने समय पहले ही संबन्ध शुल्क और इसमें दी गई छूट के न होने पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच अन्तर का, भाग को जाने पर, सहाय कर देगा।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 205/कां० सं० 355/182/79 मां० शु० 1]

के० चन्द्रमौली, अवर सचिव

G.S.R. 564(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts aluminium foil laminated with polyethylene film and falling within Chapter 76 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from:—

(i) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 27-1/2 per cent ad valorem; and

(ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

subject to the following conditions, namely:—

(a) The importer produces a certificate issued by the Director General of Technical Development or the Development Commissioner, Small Scale Industries to the effect that—

1. he has an approved programme for the manufacture of drugs and medicines; and

11. the imported aluminium foil laminated with polyethylene film would be used only for strip packing of drugs and medicines.

(b) the imported aluminium foil is of a thickness of 0.02 mm to 0.04 mm and shall contain more than 97 per cent of aluminium;

(c) the aluminium foil laminated with polyethylene film is in a form indicative of ready use for strip packing of drugs and medicines; and

(d) that the importer shall, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, bind himself to pay on demand the difference between the duty leviable, but for the exemption contained herein, and that already paid at the time of importation, in respect of such quantity of such aluminium foil as is not certified to have been used for the aforesaid purpose, by the Director General of Technical Development or Development Commissioner, Small Scale Industries, as the case may be.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st March, 1980.

[No. 205/F. No. 355/182/79-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.